

आवश्यकता

पद: चिकित्सीय देखभाल सहयोगी (Referral Care Associate)

एक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ (अर्थ) जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर वर्ष 1997 से कार्य कर रही एक गैर-सरकारी संस्था है। संस्था उदयपुर आधारित है तथा जनस्वास्थ्य के मुद्दों पर दक्षिणी राजस्थान में सक्रिय है। समय-समय पर राज्य के अन्य भागों में भी संस्था ने स्वास्थ्य के विषयों पर कार्य करती आ रही है। संस्था का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों की सम्मानजनक व गुणवत्ता युक्त तरीके से स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरी करना है।

संस्था ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम स्वास्थ्य शिविर व क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देती है। जिन मरीज़ों में विशेषज्ञों द्वारा देखभाल व अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज की जरूरत हो उन्हें जिला अस्पताल पर रैफर किया जाता है। संस्था रैफर मरीज़ों को जिला चिकित्सालय में भर्ती व चिकित्सीय देखभाल में सहायता प्रदान करती है, जिससे की दूरगामी क्षेत्र के मरीज़ बड़े अस्पताल में समय से व बिना भटके इलाज ले सकें। इस कार्य हेतु संस्था चिकित्सीय देखभाल सहयोगी पद के लिए इच्छुक व दक्ष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है। इस पद की निम्न जिम्मेदारी रहेंगी:

- रैफर मरीज़ों को जिला अस्पताल पर आकर देखभाल शुरू करने के लिए प्रेरित करना
- दिन व रात में आने वाले रैफर मरीज़ों को सेवा देनी होगी
- मरीज़ की समस्या की गंभीरता को ध्यान रखते हुए समय पर भर्ती करना व आवश्यक उपचार शुरू करवाना
- मरीज़ के रेफरल पर्ची अनुसार सम्बंधित विभागों में चिकित्सक से परामर्श व उपचार करवाना
- चिकित्सक द्वारा लिखी गयी जांच व उपचार दिलवाना
- रैफर मरीज़ के भर्ती होने पर दैनिक आधार पर उनकी इलाज सम्बंधित प्रगति व रहने में आने वाली समस्याओं में मदद करना
- सम्बंधित सरकारी योजनाओं व सेवाओं के लाभ मरीज़ों को दिलवाना व इस हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद करना
- अस्पताल में मरीज़ व परिजन को इलाज के बारे में सरल तरीके से समझाना
- रैफर मरीज़ों के इलाज के लिए उनके अस्पताल के भविष्य दौरे समय पर सुनिश्चित करना
- अस्पताल के स्टाफ से रैफर किये गए मरीज़ों की देखभाल हेतु समन्वय बनाना

शैक्षिक योग्यता व अनुभव: मास्टर ऑफ़ सोशल वर्क के बाद 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है

आवेदन ईमेल द्वारा भेजें: hr@arth.in